



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 माघ 1940 (श10)  
(सं० पटना 179) पटना, मंगलवार 5 फरवरी 2019

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 जून 2018

सं० 22/नि०सि०(दर०)-16-04/2006/1278—श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, दरभंगा द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के विरुद्ध श्री शशिभूषण ठाकुर, सदस्य, बिहार विधान सभा, (बचौल)24, विस्फी, मधुबनी से मुख्य अभियंता, दरभंगा परिक्षेत्राधीन कमला/कोशी नहर के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के संदर्भ में प्राप्त परिवाद के आलोक में मामले की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल से कराई गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री महतो के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1719 दिनांक 22.11.2010 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।

श्री महतो द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री महतो के विरुद्ध गठित आरोप को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाते हुए श्री महतो के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सहपठित ज्ञापांक-1085 दिनांक 12.05.2015 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री महतो को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री महतो को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जीउत सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 179-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>